

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(₹ करोड़)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2021-22	2022					2023	
		फर. 25	सितं. 23	अक्टू. 21	नवं. 18	दिसं. 30	जन. 27	फर. 24
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	11	1858	9657	51134	3250	33224	27370	15233
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	—	0	910	1022	1801	2376	1675	2107
4. अन्य								
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	32401	24401	31039	20249	10850	15400	7500	8350
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	32412	26259	41606	72405	15901	51000	36545	25690

टिप्पणी: 1. अन्य अर्थात एक्विजम बैंक के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा 22 मई, 2020 से फिर से शुरू की गई है।

2. 17 अप्रैल, 2020 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4एच) के तहत अन्य अर्थात नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी के लिए पुनर्वित्त सुविधा।